

Number of Pages in Booklet : 24

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या : 24

Serial No. of Booklet

पुस्तिका क्रमांक

090513

Number of Questions in Booklet : 100

पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या : 100

URATPG - 2019

EAFM

Subject Code / विषय कोड - 09

Roll No. of Candidate / अभ्यर्थी का अनुक्रमांक :

OMR Serial Number / ओ.एम.आर. क्रमांक :

Signature of Candidate / अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :

Date of Examination / परीक्षा तिथि :

Signature of Invigilator / वीक्षक के हस्ताक्षर :

Time / समय : **Two hours** / दो घण्टे

Maximum Marks / पूर्णांक : **100**

INSTRUCTIONS

1. Answer all questions.
2. All questions carry equal marks.
3. In this Booklet, the questions from serial no. 1 to serial no. 100 are subject specific.
4. Each question has four alternatives marked as (A), (B), (C), (D).
5. Choose only one alternative as an answer of a question.
6. If more than one answer is marked, then it will be treated as wrong answer.
7. Candidate has to darken only one circle indicating the correct answer on the OMR sheet by using **BLUE / BLACK BALL POINT PEN**.
8. There is no provision of **Negative marking**.
9. Carrying Mobile Phone in the examination hall is strictly prohibited. If any objectionable material is also found, then action will be taken as per University norms.
10. Please fill your Roll No. and other information carefully on OMR sheet. In case of any mistake on OMR sheet, candidate will be responsible.
11. If there is any difference between English and Hindi version of questions, then English version shall be correct.

निर्देश

1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. इस प्रश्न पुस्तिका में क्रमांक 1 से क्रमांक 100 तक के प्रश्न विषय से संबंधित हैं।
4. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर हैं जिन्हें क्रमशः (A), (B), (C), (D) से अंकित किया गया है।
5. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक विकल्प उत्तर के रूप में चुनिये।
6. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न का उत्तर गलत माना जाएगा।
7. अभ्यर्थी को सही उत्तर हेतु केवल एक गोले को ओ.एम.आर. शीट पर नीले / काले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
8. **नकारात्मक अंक** प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
9. मोबाइल फोन का परीक्षा हॉल में लाना पूर्णतया निषिद्ध है। साथ ही कोई भी अन्य वर्जित सामग्री मिलने पर विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही होगी।
10. अभ्यर्थी अपना रोल नम्बर एवं अन्य जानकारीयाँ ओ.एम.आर. शीट पर सावधानी से भरें। ओ.एम.आर. शीट पर कोई भी त्रुटि होने पर उसका पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
11. यदि प्रश्नों के हिंदी और अंग्रेजी रूपान्तरणों के मध्य किसी प्रकार का फर्क पाया जाता है, तब अंग्रेजी रूपान्तरण को ही सही माना जाएगा।

1. Who is the father of Economics ?
 (A) Alfred Marshall
 (B) A.C. Pigou
 (C) Adam Smith
 (D) Lionel Robbins
2. When the law of demand operates, the demand curve :
 (A) Slopes downward
 (B) Slopes upward
 (C) Becomes horizontal
 (D) Becomes vertical
3. Who has written "Economics of Welfare" ?
 (A) Nicholas Kaldor
 (B) A.C. Pigou
 (C) Lionel Robbins
 (D) Edwin Cannan
4. Who evolved the concept of consumer's surplus ?
 (A) I.M.D. Little
 (B) Alfred Marshall
 (C) P.A. Samuelson
 (D) J.R. Hicks
5. Who propounded the classical theory of rent ?
 (A) A.C. Pigou
 (B) David Ricardo
 (C) John F. Due
 (D) J.R. Hicks

1. अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं ?
 (A) एल्फ्रेड मार्शल
 (B) ए.सी. पीगू
 (C) एडम स्मिथ
 (D) लियोनल रॉबिन्स
2. जब माँग का नियम लागू होता है, तब माँग वक्र :
 (A) नीचे को झुकती हुयी होती है।
 (B) ऊपर को उठती हुयी होती है।
 (C) क्षैतिज होती है।
 (D) उदग्र होती है।
3. "Economics of Welfare" किसने लिखी ?
 (A) निकोलस कालडोर
 (B) ए.सी. पीगू
 (C) लियोनल रॉबिन्स
 (D) एडविन कैन्नन
4. उपभोक्ता का आधिक्य अथवा बचत सिद्धान्त किसने विकसित किया ?
 (A) आई.एम.डी. लिट्ल
 (B) एल्फ्रेड मार्शल
 (C) पी.ए. स्याम्यूएलसन्
 (D) जे.आर. हिक्स
5. लगान का प्रतिष्ठित सिद्धान्त किसने प्रतिपादित किया ?
 (A) ए.सी. पीगू
 (B) डेविड रिकार्डो
 (C) जोन एफ. ड्यू
 (D) जे.आर. हिक्स

6. Who propounded the liquidity preference theory of interest ?

- (A) J.M. Keynes
- (B) Lipsey
- (C) Alfred Marshall
- (D) Bertil Ohlin

7. In the perfect competition, there is a process of :

- (A) Free entry and restricted exit of the firms
- (B) Free entry and free exit of the firms
- (C) Restricted entry and exit of the firm
- (D) Semi free exit but absolute free entry

8. Under perfect competition, there can be :

- (A) one buyer
- (B) one seller
- (C) large number of buyers
- (D) few buyers

9. Net profit stands for :

- (A) Total Revenue - (Total cost + Depreciation)
- (B) Gross Profit - Implicit Cost
- (C) Gross Profit - Explicit Cost
- (D) None of the above

10. Indifference curves :

- (A) Are always parallel
- (B) May be parallel
- (C) May not be parallel
- (D) May be parallel or may not be parallel

6. तरलता पसन्दगी ब्याज का सिद्धान्त किसने प्रतिपादित किया ?

- (A) जे.एम. किन्स
- (B) लिप्से
- (C) एल्फ्रेड मार्शल
- (D) बरटिल ओहलिन

7. पूर्ण प्रतियोगिता में एक प्रक्रिया होती है :

- (A) स्वतंत्र प्रवेश एवं फर्मों की प्रतिबन्धित विकास
- (B) फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं स्वतंत्र विकास
- (C) फर्मों की प्रतिबन्धित प्रवेश एवं विकास
- (D) अल्प स्वतंत्र विकास परन्तु पूर्णरूप से स्वतंत्र प्रवेश

8. पूर्ण प्रतियोगिता में हो सकते हैं :

- (A) अकेला क्रेता
- (B) अकेला विक्रेता
- (C) बहुत अधिक क्रेता
- (D) थोड़े से क्रेता

9. शुद्ध लाभ का आधार है :

- (A) कुल आगम - (कुल लागत + ह्रास)
- (B) सकल लाभ - अव्यक्त लागत
- (C) सकल लाभ - व्यक्त लागत
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

10. उदासीनता वक्र :

- (A) सदैव समानान्तर होती हैं।
- (B) समानान्तर हो सकती हैं।
- (C) समानान्तर न भी हो सकती हैं।
- (D) समानान्तर हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती हैं।

11. The monopolistic firm will be in equilibrium, where :
- (A) $P = MC$
 (B) $MR = MC$
 (C) $MR = MC = \text{Price}$
 (D) None of the above
12. Total utility will be maximum when marginal utility is :
- (A) Positive
 (B) Zero
 (C) Negative
 (D) None of the above
13. The Reserve Bank of India issues notes under which of the following methods of note issue ?
- (A) Fixed fiduciary system
 (B) Maximum fiduciary system
 (C) Minimum Reserve System
 (D) Proportional Reserve System
14. In which year demonetisation was done in India :
- (A) 1948
 (B) 1968
 (C) 2016
 (D) 2017
15. Who is the present governor of R.B.I. ?
- (A) Raghuram Rajan
 (B) Urjit Patel
 (C) Shaktikanta Das
 (D) Y.V. Reddy
16. Devaluation of Money in India is taken place under which year ?
- (A) 1947
 (B) 1966
 (C) 1991
 (D) All of the above
11. एकाधिकारी फर्म संतुलन में होती है, जहाँ :
- (A) $P = MC$
 (B) $MR = MC$
 (C) $MR = MC = \text{मूल्य}$
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
12. कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है, जब सीमान्त उपयोगिता है :
- (A) धनात्मक
 (B) शून्य
 (C) ऋणात्मक
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
13. भारतीय रिजर्व बैंक निम्न नोट निर्गमन विधियों में से किस विधि के अन्तर्गत नोटों का निर्गमन करता है ?
- (A) निश्चित विश्वास पद्धति
 (B) अधिकतम विश्वास पद्धति
 (C) न्यूनतम कोष पद्धति
 (D) आनुपातिक कोष पद्धति
14. भारत में नोट बन्दी किस वर्ष की गई थी ?
- (A) 1948
 (B) 1968
 (C) 2016
 (D) 2017
15. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं ?
- (A) रघुराम राजन
 (B) उर्जित पटेल
 (C) शक्तिकान्ता दास
 (D) वाई.वी. रेड्डी
16. भारत में रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष में हुआ ?
- (A) 1947
 (B) 1966
 (C) 1991
 (D) उपरोक्त सभी

17. For achieving certain objectives the expansion and contraction of money is done, it is called :

- (A) Credit Policy
- (B) Monetary Policy
- (C) Fiscal Policy
- (D) All the above

18. Full form of NEFT :

- (A) National Economic Fund Transfer
- (B) National Electronic Fund Transfer
- (C) National Engineering Future Technique
- (D) None of the above

19. IFSC means :

- (A) Indian Full Service Corporation
- (B) Indian Financial System Code
- (C) Indian Financial System Centre
- (D) All the above

20. MICR means :

- (A) Money Information Centre Report
- (B) Money Information Credit Report
- (C) Magnetic Ink Character Recognition
- (D) None of the above

21. When Reserve Bank of India was established ?

- (A) 8th September, 1933
- (B) 6th March, 1934
- (C) 1st April, 1935
- (D) 1st January, 1950

17. कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा में विस्तार तथा संकुचन किया जाता है, तब यह कहलाता है :

- (A) साख नीति
- (B) मौद्रिक नीति
- (C) राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)
- (D) उपरोक्त सभी

18. एन.ई.एफ.टी. का पूरा नाम है :

- (A) राष्ट्रीय आर्थिक कोष हस्तांतरण
- (B) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण
- (C) राष्ट्रीय इंजिनियरिंग भविष्य तकनीक
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

19. आई.एफ.एस.सी. है :

- (A) भारतीय पूर्ण सेवा निगम
- (B) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड
- (C) भारतीय वित्तीय प्रणाली केन्द्र
- (D) उपरोक्त सभी

20. एम.आई.सी.आर. है :

- (A) मुद्रा सूचना केन्द्र प्रतिवेदन
- (B) मुद्रा सूचना साख प्रतिवेदन
- (C) मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

21. भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना कब हुयी थी ?

- (A) 8 सितम्बर, 1933
- (B) 6 मार्च, 1934
- (C) 1 अप्रैल, 1935
- (D) 1 जनवरी, 1950

22. "Immediate Purchase and Immediate Paid" principle relates to :
- (A) Debit Card
(B) Credit Card
(C) Smart Card
(D) All the above
23. ATM means :
- (A) Any Time Money
(B) Automated Time Machine
(C) Automated Teller Machine
(D) Always Time Machine
24. Functions of Money are :
- (A) Measure of Value
(B) Medium of Exchange
(C) Standard of Deferred Payment
(D) All the above
25. Who does issue one rupee note ?
- (A) Govt. of India
(B) Reserve Bank of India
(C) State Govt. of each state
(D) None of the above
26. What is present Repo Rate ?
- (A) 6.25
(B) 6.50
(C) 5.75
(D) 6.00
27. Income effect of Inferior Goods are :
- (A) Positive
(B) Negative
(C) Indifference
(D) None of the above

22. अभी खरीदो एवं अभी भुगतान करो सिद्धान्त है :
- (A) डेबिट कार्ड
(B) क्रेडिट कार्ड
(C) स्मार्ट कार्ड
(D) उपरोक्त सभी
23. ए.टी.एम. है :
- (A) किसी समय मुद्रा
(B) स्वचालित समय मशीन
(C) स्वचालित टेलर मशीन
(D) सदैव टाइम मशीन
24. मुद्रा के कार्य हैं :
- (A) मूल्य का मापन
(B) विनिमय का माध्यम
(C) स्थगित भुगतानों का माप
(D) उपरोक्त सभी
25. एक रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है ?
- (A) भारत सरकार
(B) भारतीय रिज़र्व बैंक
(C) प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
26. वर्तमान में रीपो रेट क्या है ?
- (A) 6.25
(B) 6.50
(C) 5.75
(D) 6.00
27. घटिया वस्तुओं के आय प्रभाव है :
- (A) धनात्मक
(B) ऋणात्मक
(C) तटस्थ
(D) उपरोक्त कोई नहीं

28. From the following goods which goods are substitutes ?

- (A) Pen - Ink
- (B) Car - Petrol
- (C) Pen - Pencil
- (D) Car - House

29. How per capita income is calculated ?

- (A) $\frac{\text{Population}}{\text{National Income}}$
- (B) $\frac{\text{National Income}}{\text{Population}}$
- (C) $\frac{\text{Income of each Individual}}{\text{Population}}$
- (D) $\frac{\text{Net National Product}}{\text{Population}}$

30. Presently public sector Banks are working in India :

- (A) 25
- (B) 19
- (C) 14
- (D) 10

31. Methods of credit creation are :

- (A) Issue of notes
- (B) Through Cash Deposit and Credit Deposits
- (C) Through Discounting Bills of exchange
- (D) All of the above

28. निम्न सामानों में कौन से सामान स्थानापन्न वस्तुएँ हैं ?

- (A) कलम - स्याही
- (B) कार - पेट्रोल
- (C) पेन - पेन्सिल
- (D) कार - मकान

29. प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है ?

- (A) $\frac{\text{जनसंख्या}}{\text{राष्ट्रीय आय}}$
- (B) $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$
- (C) $\frac{\text{प्रति व्यक्ति आय}}{\text{जनसंख्या}}$
- (D) $\frac{\text{शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद}}{\text{जनसंख्या}}$

30. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं :

- (A) 25
- (B) 19
- (C) 14
- (D) 10

31. साख सृजित करने की विधियाँ हैं :

- (A) नोट निर्गमन
- (B) रोकड़ जमाएँ एवं साख जमाएँ
- (C) विनिमय बिलों की कटौती द्वारा
- (D) उपरोक्त सभी

32. "A Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safely made and to which individuals entrust money when not required by them for use".

Statement made by :

- (A) Kinley
- (B) Walter Leaf
- (C) Findlay Siraj
- (D) None of the above

33. Major Fiscal function :

- (A) Allocation Function
- (B) Distribution Function
- (C) Stabilisation Function
- (D) All of the above

34. Who propounded the principle of Maximum Social Advantage ?

- (A) J.M. Keynes
- (B) Dalton
- (C) Ursula Hicks
- (D) Philip E. Taylor

35. Which is Direct Tax ?

- (A) Sales Tax
- (B) Income Tax
- (C) Service Tax
- (D) Custom Duty

36. "When a tax is imposed on a particular person and he transfer this tax burden to another person" called as :

- (A) Impact of Tax
- (B) Tax-shifting
- (C) Incidence of Tax
- (D) Evasion of Tax

32. "बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये व्यक्तियों को मुद्रा उधार देती हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है तथा जिनके पास व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त मुद्रा जमा की जाती है।"

यह विवरण दिया गया :

- (A) किनले
- (B) वाल्टर लीफ
- (C) फिण्डले शिराज
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

33. मुख्य राजकोषीय कार्य :

- (A) आवंटन कार्य
- (B) वितरण कार्य
- (C) स्थायीकरण कार्य
- (D) उपरोक्त सभी

34. किसने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त प्रतिपादित किया ?

- (A) जे.एम. किन्स
- (B) डाल्टन
- (C) उर्सुला हिक्स
- (D) फिलिप ई. टेलर

35. कौन सा प्रत्यक्ष कर है ?

- (A) विक्रय कर
- (B) आय कर
- (C) सेवा कर
- (D) सीमा शुल्क

36. "जब एक कर किसी विशेष व्यक्ति पर लगाया जाता है तब वह इस कर का भार अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित कर देता है।" कहलाता है :

- (A) कर का प्रभाव
- (B) कर का हस्तांतरण
- (C) करापात
- (D) कर वंचना

37. Who developed first Zero Base Budgeting ?
 (A) Peter A. Pyher
 (B) Findlay Siraj
 (C) Dalton
 (D) Musgrave
38. Which is not negotiable instrument ?
 (A) Bill of Exchange
 (B) Promissory Note
 (C) Postal order
 (D) Cheque
39. Indian Capital market is divided in :
 (A) Industrial Securities Market
 (B) Government Securities Market
 (C) Longterm Loans Market
 (D) All of the above
40. Money Market Instrument is :
 (A) Bill of Exchange
 (B) Promissory notes
 (C) Treasury Bills
 (D) All of the above
41. Debit means :
 (A) An increase in assets
 (B) A decrease in assets
 (C) An increase in liability
 (D) None of the above
42. Ledger is a book of :
 (A) Original entry
 (B) Secondary entry
 (C) All cash transactions
 (D) All non-cash transactions
37. किसने शून्य आधारित बजटिंग विकसित किया ?
 (A) पीटर ए. पेयर
 (B) फिण्डले शिराज
 (C) डाल्टन
 (D) मुसग्रेव
38. कौन-सा इनमें विनिमय साध्य विलेख नहीं है ?
 (A) विनिमय बिल
 (B) प्रतिज्ञा पत्र
 (C) पोस्टल ऑर्डर
 (D) चेक
39. भारतीय पूँजी बाजार विभक्त है :
 (A) औद्योगिक प्रतिभूति बाजार
 (B) सरकारी प्रतिभूति बाजार
 (C) दीर्घकालीन ऋण बाजार
 (D) उपरोक्त सभी
40. मुद्रा बाजार के औजार है :
 (A) विनिमय बिल
 (B) प्रतिज्ञा पत्र
 (C) ट्रेजरी बिल
 (D) उपरोक्त सभी
41. नामे का अर्थ :
 (A) सम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी
 (B) सम्पत्तियों में कमी
 (C) देनदारियों में वृद्धि
 (D) उपरोक्त में कोई नहीं
42. लेजर लेखा पुस्तिका है :
 (A) मूल प्रविष्टि
 (B) द्वितीय प्रविष्टि
 (C) सभी नगद व्यवहार
 (D) सभी गैर-नगद व्यवहार

43. Drawings are deducted from :

- (A) Sales
- (B) Purchases
- (C) Returns onward
- (D) Capital

44. Banking (Regulation) Act was passed in the year :

- (A) 1943
- (B) 1949
- (C) 1969
- (D) 2001

45. International trade is the outcome of :

- (A) Territorial Division of Labour
- (B) Political relationship
- (C) Cultural ties
- (D) All of the above

46. Which is **not** the instrument of external payments ?

- (A) Bank draft
- (B) Letter of credit
- (C) Hundi
- (D) Telegraphic Transfer

47. The balance of trade is a :

- (A) Trader's balance
- (B) Import-export balance
- (C) Transaction balance
- (D) Disequilibrium balance

48. The SDR scheme came into operation in :

- (A) 1969
- (B) 1971
- (C) 1947
- (D) 1970

43. आहरण घटाये जाते हैं :

- (A) विक्रय
- (B) क्रय
- (C) अग्र लाभ
- (D) पूँजी

44. भारत में बैंकिंग नियंत्रण कानून पारित किया गया :

- (A) 1943
- (B) 1949
- (C) 1969
- (D) 2001

45. विदेशी व्यापार निम्न के कारण होता है :

- (A) श्रम का क्षेत्रीय विभाजन
- (B) राजनैतिक सम्बन्ध
- (C) सांस्कृतिक बन्धन
- (D) उपरोक्त सभी

46. कौन-सा विदेशी भुगतान का पुर्जा नहीं है ?

- (A) बैंक ड्राफ्ट
- (B) साख पत्र
- (C) हुण्डी
- (D) तार द्वारा भुगतान

47. व्यापार शेष है :

- (A) व्यापारियों का संतुलन
- (B) आयात-निर्यात संतुलन
- (C) सौदों का संतुलन
- (D) असंतुलन शेष

48. एस.डी.आर. योजना का प्रारम्भ हुआ :

- (A) 1969
- (B) 1971
- (C) 1947
- (D) 1970

49. The IMF was organised in the year :

- (A) 1947
- (B) 1946
- (C) 1951
- (D) 1953

50. W.T.O. was established in the year :

- (A) 1995
- (B) 2001
- (C) 1997
- (D) 1998

51. International Development Association is affiliated to :

- (A) The IMF
- (B) The IFC
- (C) IBRD
- (D) None of the above

52. Foreign Exchange Management Act was introduced in the year :

- (A) 1997
- (B) 1999
- (C) 2000
- (D) None of the above

53. Major Programmes of Tribal Welfare in Rajasthan :

- (A) Tribal-Sub-Plan Area
- (B) MADA
- (C) MADA Cluster
- (D) All of the above

49. आई.एम.एफ. संगठित किया गया वर्ष :

- (A) 1947
- (B) 1946
- (C) 1951
- (D) 1953

50. डब्ल्यू.टी.ओ. की स्थापना किस वर्ष में की गई थी ?

- (A) 1995
- (B) 2001
- (C) 1997
- (D) 1998

51. अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन सम्बद्ध है :

- (A) आई.एम.एफ.
- (B) आई.एफ.सी.
- (C) आई.बी.आर.डी.
- (D) उपरोक्त कोई नहीं

52. विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम लागू किया गया, वर्ष में :

- (A) 1997
- (B) 1999
- (C) 2000
- (D) उपरोक्त कोई नहीं

53. राजस्थान में आदिवासी कल्याण के कार्यक्रम :

- (A) जनजातीय उपयोग क्षेत्र
- (B) माडा
- (C) माडा क्लस्टर
- (D) उपरोक्त सभी

54. Dr. Rangrajan Committee Estimated below poverty ratio in the year 2011-12 in Rajasthan :
- (A) 21.7
(B) 34.4
(C) 37.2
(D) None of the above
55. Prime Minister Nehru inaugurated Panchayati Raj in Rajasthan in the year :
- (A) 1952
(B) 1959
(C) 1962
(D) 1971
56. There are state financed universities in Rajasthan are :
- (A) 40
(B) 30
(C) 05
(D) None of the above
57. Rajasthan Industrial and Investment Promotion Policy was launched in the year :
- (A) 2006
(B) 2010
(C) 2014
(D) 1994
58. The standard current ratio is :
- (A) 2 : 1
(B) 1 : 1
(C) 1 : 2
(D) All of the above
54. डॉ. रंगराजन समिति ने राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे का अनुपात 2011-12 में अनुमान किया था :
- (A) 21.7
(B) 34.4
(C) 37.2
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
55. राजस्थान में प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था वर्ष :
- (A) 1952 में
(B) 1959 में
(C) 1962 में
(D) 1971 में
56. राज्य द्वारा वित्तपोषित विश्व विद्यालयों की संख्या हैं :
- (A) 40
(B) 30
(C) 05
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
57. राजस्थान उद्योग एवं निवेश-संवर्धन नीति लागू की गई वर्ष :
- (A) 2006
(B) 2010
(C) 2014
(D) 1994
58. प्रमाणित चालू अनुपात होता है :
- (A) 2 : 1
(B) 1 : 1
(C) 1 : 2
(D) उपरोक्त सभी

59. Calculate Stock Turn-Over Ratio from the following information :

Opening stock ₹ 20,000

Closing stock ₹ 16,000

Sales ₹ 48,000

Percentage of Gross profit on Goods sold 25 :

- (A) 2 times
- (B) 3 times
- (C) 4 times
- (D) 5 times

60. Current ratio is 2.4 : 1 and net working capital is ₹ 70,000. Calculate the amount of current assets :

- (A) ₹ 2,40,000
- (B) ₹ 1,20,000
- (C) ₹ 3,60,000
- (D) ₹ 4,80,000

61. Opening stock ₹ 35,000, Closing stock ₹ 45,000, Sales ₹ 4,00,000, Gross Profit Ratio 20% on sales. Calculate purchases :

- (A) ₹ 3,20,000
- (B) ₹ 3,30,000
- (C) ₹ 4,30,000
- (D) ₹ 5,30,000

62. Satisfactory Debt-equity Ratio is :

- (A) 1 : 1
- (B) 2 : 1
- (C) 0.5 : 1
- (D) All of the above

59. स्कन्ध आवर्त अनुपात की निम्न सूचनाओं में से गणना कीजिये :

प्रारम्भिक स्कन्ध ₹ 20,000

अन्तिम स्कन्ध ₹ 16,000

विक्री ₹ 48,000

विक्रय पर सकल लाभ का प्रतिशत 25 :

- (A) 2 बार
- (B) 3 बार
- (C) 4 बार
- (D) 5 बार

60. चालू अनुपात 2.4 : 1 है तथा शुद्ध कार्यशील पूँजी ₹ 70,000 है। चालू सम्पत्तियों की गणना कीजिए :

- (A) ₹ 2,40,000
- (B) ₹ 1,20,000
- (C) ₹ 3,60,000
- (D) ₹ 4,80,000

61. प्रारम्भिक स्कन्ध ₹ 35,000, अन्तिम स्कन्ध ₹ 45,000, विक्री ₹ 4,00,000, सकल लाभ अनुपात 20% विक्रय पर। क्रय की गणना कीजिए :

- (A) ₹ 3,20,000
- (B) ₹ 3,30,000
- (C) ₹ 4,30,000
- (D) ₹ 5,30,000

62. ऋण समता अनुपात संतोषप्रद माना जाता है :

- (A) 1 : 1
- (B) 2 : 1
- (C) 0.5 : 1
- (D) उपरोक्त सभी

3. Net present value is :
- PV of discounted cash inflow + Initial Investment
 - PV of discounted cash inflow - Initial Investment
 - Initial Investment + cash inflows
 - None of the above
4. Cash Inflow is :
- Net Profit After tax + Annual Depreciation
 - Net Profit after tax
 - Net Profit after tax - Annual Depreciation
 - None of the above
5. If a company has invested ₹ 60,000 and get annual income of ₹ 15,000 before depreciation but after taxes continuously for 15 years. Compute pay-back period :
- 5 years
 - 4 years
 - 10 years
 - None of the above
6. Financial Decisions are :
- Investment Decisions
 - Financing Decisions
 - Dividend Decisions
 - Above all
7. Given
P/V Ratio 25%
Turnover ₹ 1,00,000
Find variable cost.
- ₹ 75,000
 - ₹ 60,000
 - ₹ 80,000
 - None of the above

63. शुद्ध वर्तमान मूल्य है :
- रोकड़ अन्तर्वाहों का वर्तमान मूल्य + प्रारम्भिक विनियोग
 - रोकड़ अन्तर्वाहों का वर्तमान मूल्य - प्रारम्भिक विनियोग
 - प्रारम्भिक विनियोग + रोकड़ अन्तर्वाह
 - उपरोक्त में कोई नहीं
64. रोकड़ अन्तर्वाह है :
- शुद्ध लाभ कर बाद + वार्षिक ह्रास
 - कर पश्चात् शुद्ध लाभ
 - कर पश्चात् शुद्ध लाभ - वार्षिक ह्रास
 - उपरोक्त में कोई नहीं
65. यदि एक कम्पनी ₹ 60,000 के विनियोग से ₹ 15,000 की वार्षिक आय ह्रास पूर्व परन्तु कर पश्चात् लगातार 15 साल तक प्राप्त करती है, तो अदायगी अवधि ज्ञात कीजिये :
- 5 वर्ष
 - 4 वर्ष
 - 10 वर्ष
 - उपरोक्त में कोई नहीं
66. वित्तीय निर्णय हैं :
- विनियोग निर्णय
 - वित्तयन निर्णय
 - लाभांश निर्णय
 - उपरोक्त सभी
67. दिया हुआ है :
P/V अनुपात 25%
बिक्री ₹ 1,00,000
परिवर्तनशील लागत की गणना कीजिए :
- ₹ 75,000
 - ₹ 60,000
 - ₹ 80,000
 - उपरोक्त में कोई नहीं

68. A company has sales of ₹ 6,00,000 and fixed expenses ₹ 1,80,000 and profit of ₹ 1,20,000, calculate margin of safety :

- (A) ₹ 2,00,000
- (B) ₹ 2,40,000
- (C) ₹ 3,60,000
- (D) None of the above

69. In common size Profit and Loss Account sales figure is taken as base and other items are expressed as :

- (A) Percentage of purchases
- (B) Percentage of sales
- (C) Percentage of total assets
- (D) Percentage of total liabilities

70. The profit-volume ratio of a firm is 50% and the margin of safety is 40%. Calculate the BEP, if sales are ₹ 30,00,000.

- (A) BEP = 14,00,000
- (B) BEP = 18,00,000
- (C) BEP = 15,00,000
- (D) BEP = 12,00,000

71. Sales Budget is a :

- (A) Programme Budget
- (B) Master Budget
- (C) Functional Budget
- (D) None of the above

72. Which of the following will increase the working capital ?

- (A) Purchase of computer
- (B) Redemption of Preference shares
- (C) Sale of motor car
- (D) Payment of creditors

68. एक कम्पनी का विक्रय ₹ 6 लाख तथा स्थायी व्यय ₹ 1,80,000 हैं तथा लाभ ₹ 1,20,000 है, तो सुरक्षा सीमा गणना कीजिए :

- (A) ₹ 2,00,000
- (B) ₹ 2,40,000
- (C) ₹ 3,60,000
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं

69. समान आकार लाभ-हानि खाता बनाने के लिए विक्रय राशि को आधार मानकर अन्य मदों को दिखाया जाता है :

- (A) क्रय के प्रतिशत के रूप में
- (B) विक्रय के प्रतिशत के रूप में
- (C) कुल सम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में
- (D) कुल दायित्वों के प्रतिशत के रूप में

70. एक फर्म का लाभ-मात्रा अनुपात 50% तथा सुरक्षा सीमा 40 प्रतिशत है, तो सम-विच्छेद बिन्दु ज्ञात कीजिये यदि विक्रय ₹ 30,00,000 है।

- (A) बी.ई.पी. = 14,00,000
- (B) बी.ई.पी. = 18,00,000
- (C) बी.ई.पी. = 15,00,000
- (D) बी.ई.पी. = 12,00,000

71. विक्रय बजट है :

- (A) कार्यक्रम बजट
- (B) मास्टर बजट
- (C) कार्यात्मक बजट
- (D) उपर्युक्त में कोई नहीं

72. निम्न में कौन सा व्यवहार कार्यशील पूँजी में वृद्धि करेगा ?

- (A) कम्प्यूटर का क्रय
- (B) पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन
- (C) मोटर कार की बिक्री
- (D) लेनदारों का भुगतान

73. Combined leverage is the product of :
- Current Ratio $\times$ Quick Ratio
 - Current Ratio $\times$ Current Assets
 - DOL $\times$ DFL
 - Fixed Operating Cost $\times$ Fixed Financial Cost
74. Over capitalisation means :
- A situation in which a firm has excess capital.
 - A situation in which firm has low rate of return.
 - A situation in which firm has high rate of return.
 - When capital is acquired at low rate of interest.
75. Which is **not** an instrument of monetary policy ?
- Bank Rate
 - Tax Policy
 - Reserve Ratio
 - Buying/Selling of securities in open market
76. Capital budgeting is concerned with :
- Long-Term Investments
 - Short-Term Investments
 - Day to Day Investments
 - All of the above
77. Who is the Vice Chairman of Niti Ayog ?
- Rajiv Kumar
 - Arvind Panagariya
 - Montek Singh
 - Narendra Modi

73. सामूहिक उत्तोलक निम्न का गुणनफल होता है :
- चालू अनुपात $\times$ त्वरित अनुपात
 - चालू अनुपात $\times$ चालू सम्पत्तियाँ
 - परिचालन उत्तोलक $\times$ वित्तीय उत्तोलक
 - स्थायी परिचालन उत्तोलक $\times$ स्थायी वित्तीय लागत
74. अति पूँजीकरण का आशय है :
- वह स्थिति जब फर्म में पूँजी की अधिकता हो।
 - वह स्थिति जब फर्म को निम्न प्रत्याय दर मिले।
 - वह स्थिति जब फर्म को उच्च प्रत्याय दर मिले।
 - जब कम ब्याज दर पर पूँजी प्राप्त हुई हो।
75. निम्न में कौन मुद्रानीति का साधन नहीं है ?
- बैंक दर
 - कर नीति
 - प्रारक्षित निधि अनुपात
 - खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री
76. पूँजीगत बजटन सम्बन्धित होता है :
- दीर्घकालीन विनियोग से
 - अल्पकालीन विनियोग से
 - दैनिक विनियोग से
 - उपरोक्त सभी
77. नीति आयोग का उप-अध्यक्ष कौन हैं ?
- राजीव कुमार
 - अरविन्द पानगडिया
 - मोन्टेक सिंह
 - नरेन्द्र मोदी

78. Co-operative principles are :
- Open membership
 - Democratic control
 - Co-operative education
 - All the above
79. The main objectives of consumer co-operative are :
- To provide cheap and good quality goods to consumers
 - Protect the interests of consumers
 - Abolition of middlemen
 - All of the above
80. The First Consumers Co-operative Society in the world was :
- National Consumers Co-operative Federation
 - Super Bazar
 - Rochdale Equitable Pioneer Society
 - All of the above
81. What is the term used for the budgeting exercise which is based on what happened in the previous year ?
- Zero Base budgeting
 - Historical Budgeting
 - Flexible Budget
 - Careless Budget
82. In India which of the following are part of legal tender money ?
- Coins and currency notes
 - Coins and bank draft
 - Only currency issued by RBI
 - Currency and SDR

78. सहकारिता के सिद्धान्त हैं :
- खुली सदस्यता
 - लोकतांत्रिक नियंत्रण
 - सहकारी शिक्षा
 - उपरोक्त सभी
79. उपभोक्ता सहकारिता के प्रमुख उद्देश्य हैं :
- उपभोक्ताओं को सस्ती एवं अच्छी किस्म का सामान उपलब्ध करवाना।
 - उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना।
 - मध्यस्थों को समाप्त करना।
 - उपर्युक्त सभी
80. विश्व में प्रथम सहकारिता समिति थी :
- राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ
 - सुपर बाजार
 - रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसायटी
 - उपरोक्त सभी
81. उस बजटिंग के लिए कौन सी शब्दावली प्रयोग की जाती है जो बजट आधारित होता है गत वर्ष में क्या हुआ था ?
- शून्य आधारित बजट
 - ऐतिहासिक बजट
 - लोचदार बजट
 - लापरवाह बजट
82. भारत में निम्न में कौन सी वैध मुद्रा के भाग होते हैं ?
- मुद्रा एवं सिक्के
 - सिक्के व बैंक ड्राफ्ट
 - केवल आर.बी.आई. द्वारा निर्गमित मुद्रा
 - मुद्रा एवं एस.डी.आर.

78. Co-operative principles are :

- (A) Open membership
- (B) Democratic control
- (C) Co-operative education
- (D) All the above

79. The main objectives of consumer co-operative are :

- (A) To provide cheap and good quality goods to consumers
- (B) Protect the interests of consumers
- (C) Abolition of middlemen
- (D) All of the above

80. The First Consumers Co-operative Society in the world was :

- (A) National Consumers Co-operative Federation
- (B) Super Bazar
- (C) Rochdale Equitable Pioneer Society
- (D) All of the above

81. What is the term used for the budgeting exercise which is based on what happened in the previous year ?

- (A) Zero Base budgeting
- (B) Historical Budgeting
- (C) Flexible Budget
- (D) Careless Budget

82. In India which of the following are part of legal tender money ?

- (A) Coins and currency notes
- (B) Coins and bank draft
- (C) Only currency issued by RBI
- (D) Currency and SDR

78. सहकारिता के सिद्धान्त हैं :

- (A) खुली सदस्यता
- (B) लोकतांत्रिक नियंत्रण
- (C) सहकारी शिक्षा
- (D) उपरोक्त सभी

79. उपभोक्ता सहकारिता के प्रमुख उद्देश्य हैं :

- (A) उपभोक्ताओं को सस्ती एवं अच्छी किस्म का सामान उपलब्ध करवाना।
- (B) उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना।
- (C) मध्यस्थों को समाप्त करना।
- (D) उपर्युक्त सभी

80. विश्व में प्रथम सहकारिता समिति थी :

- (A) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ
- (B) सुपर बाजार
- (C) रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसायटी
- (D) उपरोक्त सभी

81. उस बजटिंग के लिए कौन सी शब्दावली प्रयोग की जाती है जो बजट आधारित होता है गत वर्ष में क्या हुआ था ?

- (A) शून्य आधारित बजट
- (B) ऐतिहासिक बजट
- (C) लोचदार बजट
- (D) लापरवाह बजट

82. भारत में निम्न में कौन सी वैध मुद्रा के भाग होते हैं ?

- (A) मुद्रा एवं सिक्के
- (B) सिक्के व बैंक ड्राफ्ट
- (C) केवल आर.बी.आई. द्वारा निर्गमित मुद्रा
- (D) मुद्रा एवं एस.डी.आर.

83. In Rajasthan, long-term co-operative credit structure is based on :

- (A) Two-tier system
- (B) Three-tier system
- (C) Four-tier system
- (D) Five-tier system

84. Who is the Chairman of Fifteenth Finance Commission ?

- (A) Shaktikanta Das
- (B) N.K. Singh
- (C) Ajay Narain Jha
- (D) Y.V. Reddy

85. Who was the father of co-operation ?

- (A) Mahatma Gandhi
- (B) Reiffeisen
- (C) Robert Own
- (D) William King

86. Co-operative Land Development Banks provide loans for :

- (A) Permanent improvement in Agriculture
- (B) To purchase tractor
- (C) To dig well and tubewell
- (D) All of the above

87. Objective of Co-operative Marketing are :

- (A) To remove intermediaries
- (B) To provide remunerative price to farmers
- (C) To increase the bargaining power of cultivators
- (D) All of the above

83. राजस्थान में दीर्घकालीन साख संरचना आधारित है :

- (A) दो स्तरीय प्रणाली पर
- (B) तीन स्तरीय प्रणाली पर
- (C) चार स्तरीय प्रणाली पर
- (D) पाँच स्तरीय प्रणाली पर

84. पन्द्रहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन हैं ?

- (A) शक्तिकान्ता दास
- (B) एन.के. सिंह
- (C) अजय नारायण झा
- (D) वाई.वी. रेड्डी

85. सहकारिता के पिता कौन थे ?

- (A) महात्मा गाँधी
- (B) रेफेसन
- (C) राबर्ट आवन
- (D) विलियम किंग

86. सहकारी भूमि विकास बैंक ऋण उपलब्ध करवाते हैं :

- (A) कृषि में स्थायी सुधार हेतु
- (B) ट्रैक्टर खरीद हेतु
- (C) कुआँ एवं नलकूप खोदने हेतु
- (D) उपरोक्त सभी

87. सहकारी विपणन के उद्देश्य हैं :

- (A) मध्यस्थों को समाप्त करना।
- (B) कृषकों को लाभदायक मूल्य दिलवाना।
- (C) काश्तकारों की सौदा शक्ति बढ़ाना।
- (D) उपर्युक्त सभी

88. Co-operative Credit Movement originated in :

- (A) England
- (B) Japan
- (C) Germany
- (D) India

89. "MNREGA" was started on :

- (A) February 2, 2006
- (B) January 17, 2009
- (C) October 2, 1997
- (D) November 14, 2010

90. Earning per share of X Ltd., are ₹ 12 and the market price of a share of face value of ₹ 100 is ₹ 150. Calculate cost of equity share capital :

- (A) 6%
- (B) 8%
- (C) 12%
- (D) 15%

91. Ram has taken a loan of ₹ 10,000 from State Bank of India. The rate of interest is 8% per annum. Ram has incurred ₹ 200 as different expenses for this loan. Compute cost of this short-term loan :

- (A) 8%
- (B) 7.84%
- (C) 8.16%
- (D) None of the above

92. The market price of a share is ₹ 90 and the growth rate of dividend is 12% and there is a gain of ₹ 18/share. You are required to find out the cost of retained earnings :

- (A) 20%
- (B) 12%
- (C) 32%
- (D) 5%

88. सहकारी साख आन्दोलन का उद्भव हुआ :

- (A) इंग्लैंड में
- (B) जापान में
- (C) जर्मनी में
- (D) भारत में

89. "मनरेगा" प्रारम्भ हुआ था :

- (A) 2 फरवरी 2006 को
- (B) 17 जनवरी 2009 को
- (C) 2 अक्टूबर 1997 को
- (D) 14 नवम्बर 2010 को

90. एक्स लि. की प्रति अंश आय ₹ 12 है तथा प्रति अंश बाजार मूल्य ₹ 150 है जबकि उसका सम मूल्य ₹ 100 है। समता अंश पूँजी की लागत की गणना कीजिये :

- (A) 6%
- (B) 8%
- (C) 12%
- (D) 15%

91. राम ने भारतीय स्टेट बैंक से ₹ 10,000 का ऋण लिया। ब्याज दर प्रति वर्ष 8% है। राम ने इस ऋण पर ₹ 200 विभिन्न व्ययों में खर्च किये। इस अल्पकालीन ऋण की लागत ज्ञात कीजिये :

- (A) 8%
- (B) 7.84%
- (C) 8.16%
- (D) उपर्युक्त कोई नहीं

92. एक अंश का बाजार मूल्य ₹ 90 है और लाभांश वृद्धि दर 12% है। प्रति अंश अर्जन ₹ 18 है। आप प्रतिधारित अर्जनों की लागत ज्ञात कीजिए।

- (A) 20%
- (B) 12%
- (C) 32%
- (D) 5%

93. Income Tax is :
- (A) Progressive
(B) Regressive
(C) Proportional
(D) All the above
94. Payout ratio is :
- (A) Dividend per share
(B) $\frac{\text{Dividend per share}}{\text{Earning per share}} \times 100$
(C) Earning Dividend
(D) None of the above
95. Advantages of Stable Dividend Policy is :
- (A) Faith in shareholders
(B) Satisfaction in shareholders
(C) Stability in Market Price of shares
(D) All of the above
96. What will be affected under deficit finance system ?
- (A) Natural Disaster
(B) Govt. Control
(C) Consumption
(D) Government productions
97. Business Economics is subject which :
- (A) Studies economic relationships
(B) Studies economic activities at the aggregate level
(C) Deals with the tools of economics used for decision making in business
(D) Studies optimum allocation of limited resources

93. आय कर है :
- (A) प्रगतिशील
(B) प्रतिगामी
(C) आनुपातिक
(D) उपर्युक्त सभी
94. भुगतान अनुपात है :
- (A) प्रति अंश लाभ
(B) $\frac{\text{प्रति अंश लाभ}}{\text{प्रति अर्जन आय}} \times 100$
(C) अर्जन लाभांश
(D) उपरोक्त में कोई नहीं
95. सुस्थिर लाभांश नीति के लाभ हैं :
- (A) अंशधारियों में विश्वास
(B) अंशधारियों में संतोष
(C) अंशों के बाजार मूल्य में स्थिरता
(D) उपरोक्त सभी
96. वित्तीय घाटे की व्यवस्था में क्या प्रभावित होता है ?
- (A) प्राकृतिक प्रकोप
(B) सरकारी नियंत्रण
(C) उपभोग
(D) सरकारी उत्पादन
97. व्यावसायिक अर्थशास्त्र को उस विषय के रूप में पढ़ा जाता है :
- (A) आर्थिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है।
(B) आर्थिक गतिविधियों का उनके समग्र स्तर पर अध्ययन करता है।
(C) व्यवसाय में निर्णयन के लिए प्रयुक्त अर्थशास्त्र के उपकरणों से सम्बन्धित है।
(D) सीमित साधनों के अनुकूलतम आवंटन का अध्ययन करता है।

98. Which of the following is **not** the feature of payback period method ?

- (A) It is simply a method of cost recovery and not profitability.
- (B) It does not consider the time value of money.
- (C) It does not consider the risk associated with the projects.
- (D) It is very difficult.

99. Who among the following has given Absolute Advantage Model of international trade ?

- (A) Adam Smith
- (B) David Ricardo
- (C) Hackscher Ohlin
- (D) William Petty

100. Which one among the following has the largest share of exports from India ?

- (A) Agriculture and Allied products
- (B) Gem and Jewellery
- (C) Handicrafts
- (D) Electronic Goods

98. अदायगी अवधि विधि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है ?

- (A) यह सरल रूप में लागत पुनर्प्राप्ति की विधि है न कि लाभदायकता की।
- (B) यह मुद्रा के समय मूल्य पर विचार नहीं करती है।
- (C) यह परियोजना से सम्बद्ध जोखिम पर विचार नहीं करती है।
- (D) इसकी गणना अत्यन्त कठिन है।

99. निम्नलिखित में से किसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ प्रारूप दिया ?

- (A) एडम स्मिथ
- (B) डेविड रिकार्डो
- (C) हैचर ओहलिन
- (D) विलियम पेट्री

100. निम्न में से किसका निर्यात भारत के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है ?

- (A) कृषि एवं सम्बन्धित वस्तुएँ
- (B) रत्न एवं आभूषण
- (C) हस्तशिल्प
- (D) इलेक्ट्रॉनिक सामान

- o o o -

- o o o -